

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी 2022 — माघ 29, शक 1943

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2022

अधिसूचना

क्रमांक 1407/वि.स./स्था./2022.— छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1990 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 के अंतर्गत निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. अर्थात्—

संशोधन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के सेवा अधिनियम, 1981 के अधीन निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम, 1990 के उप नियम - 3 में उल्लेखित पदों हेतु अर्हताएं निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है—

कड़िका क्रमांक	पद	वर्तमान अर्हताएं	संशोधित अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)
3(21)	आशुटकक (स्टेनो टायपिस्ट)	<p>01. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>02. हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति. (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)</p> <p>03. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेषन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।</p>	<p>वर्तमान अर्हताओं के साथ ही साथ बिन्दु क्रमांक 4 —</p> <p>“मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेषन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।” प्रतिस्थापित किया जावे।</p>

कंडिका क्रमांक	पद	वर्तमान अर्हताएं	संशोधित अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)
3(22)	कम्प्यूटर ऑपरेटर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में स्नातक उपाधि एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि	वर्तमान अर्हताओं के साथ ही साथ "मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।" प्रतिस्थापित किया जाये।
3(24)	सहायक ग्रेड-3	<p>01. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>अथवा</p> <p>पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>02. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा</p> <p>03. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।</p>	वर्तमान अर्हताओं के साथ ही साथ बिन्दु क्रमांक 4 - "मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।" प्रतिस्थापित किया जाये।

कंडिका क्रमांक	पद	वर्तमान अर्हताएं	संशोधित अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)
3(25)	सहायक ग्रेड-3 सह अनुवादक	<p>01. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>अथवा</p> <p>पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>02. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा</p> <p>03. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) ।</p> <p>04. छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी से हिन्दी एवं हिन्दी से छत्तीसगढ़ी में अनुवाद में दक्ष ।</p>	<p>वर्तमान अर्हताओं के साथ ही साथ बिन्दु क्रमांक 5 - "मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।" प्रतिस्थापित किया जाये ।</p>

आदेशानुसार

हस्ता./—

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)

प्रमुख सचिव.